



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या २० पटना, बुधवार, २६ वैशाख १९३४ (श०)
१६ मई २०१२ (ई०)

विषय-सूची

| पृष्ठ | पृष्ठ |
|---|-------|
| भाग-१—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। | २-२ |
| भाग-१-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। | --- |
| भाग-१-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-१ और २, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। | --- |
| भाग-१-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि | --- |
| भाग-२—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। | ३-८ |
| भाग-३—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। | --- |
| भाग-४—बिहार अधिनियम | --- |
| भाग-५—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। | --- |
| भाग-७—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। | --- |
| भाग-८—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। | --- |
| भाग-९—विज्ञापन | --- |
| भाग-९-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं | --- |
| भाग-९-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। | ९-३८ |
| पूरक | --- |
| पूरक-क | ३९-४० |

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

8 मई 2012

सं० 01/स्था/न०नि०-09/08-1582/न०वि०एवंआ०वि०—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अधीन श्री प्रद्योत कुमार राय, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी को नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक, पटना नगर निगम, पटना के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

विभागीय अधिसूचना संख्या 6637, दिनांक 12 दिसम्बर 2011 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

4 मई 2012

सं० 1/अ०-418/2007-6360—श्री एम० सरवणन, भा०प्र०से०(2002), जिला पदाधिकारी, अररिया को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 16 मई 2012 से 04 जून 2012 तक कुल बीस दिनों (20) के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द बिहारी प्रसाद, संयुक्त सचिव।

3 मई 2012

सं० 1/अ०-15/2012-6307—श्री सुधीर कुमार, भा०प्र०से० (82), प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 14 फरवरी 2012 से 17 फरवरी 2012 तक कुल चार दिनों (04) के उपार्जित छुट्टी की धटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द बिहारी प्रसाद, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 09-571+30-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

पत्रांक— 9/नि०-01-01/2011-सा०प्र० 3920

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी संबंधित विभाग/निदेशालय
/प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय

पटना, दिनांक 14 मार्च, 2012.

विषय :- बिहार राज्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों की निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर मेधा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा।

महाशय,

बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2009 (संशोधन नियमावली, 2011) के नियम 4.2 के आलोक में गठित चयन समिति से विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्ट अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है।

2. चयन समिति की प्राप्त अनुशंसा के अलोक में उक्त नियमावली, नियम-4.7 में प्रदत्त शक्तियों के तहत निम्नांकित अभ्यर्थियों को बैंड वेतन 5200-20200 रु० एवं ग्रेड पे-1900 रु० में बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु उनके नाम के सामने स्तम्भ-7 में अंकित विभाग/निदेशालय/कार्यालय आवंटित किया जाता है:-

| क्र० सं० | फॉर्म संख्या | नाम | खेल विधा का नाम | केटेगरी | शैक्षणिक योग्यता | आवंटित विभाग का नाम | अभ्युक्ति |
|----------|--------------|--|-----------------|---------|--------------------|---------------------------------|-----------|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1 | 69 | Shakti Kumar शक्ति कुमार | एथलेटिक्स | Gen. | बी०ए० | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | |
| 2 | 752 | Prem Kumar प्रेम कुमार | बैडमिंटन | Gen. | बी०ए० | गृह विभाग (कारा निरीक्षणालय) | |
| 3 | 59 | Gautam Kumar Mandal गौतम कुमार मंडल | बॉक्सिंग | E.B.C. | बी०ए० | आपदा प्रबंधन विभाग | |
| 4 | 682 | Saroj Kumar Jha सरोज कुमार झा | बॉक्सिंग | Gen. | बी०पी०एड० बी०ए० | ग्रामीण कार्य विभाग | |
| 5 | 567 | Ramanjee रमणजी | डिसेबलड | Gen. | बी०ए० | आयुक्त कार्यालय मुजफ्फरपुर | |
| 6 | 578 | Binod Kumar Singh बिनोद कुमार सिंह | डिसेबलड | B.C.II | बी०ए० | लघु जल संसाधन विभाग | |

| क्र० सं० | फॉर्म संख्या | नाम | खेल विधा का नाम | केटेगरी | शैक्षणिक योग्यता | आवंटित विभाग का नाम | अभ्युक्ति |
|----------|--------------|--|-----------------|--------------|------------------|-------------------------------|-----------|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 7 | 568 | Chandan Kumar चंदन कुमार | डिसेबल्ड | Gen. | बी0कॉम0 | जल संसाधन विभाग | |
| 8 | 386 | Ram Pravesh Gupta राम प्रवेश गुप्ता | डिसेबल्ड | B.C.II | एम0ए0 | ग्रामीण कार्य विभाग | |
| 9 | 348 | Rakesh Kumar राकेश कुमार | फेंसिंग | E.B.C. | एम0पी0एड0 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | |
| 10 | 560 | Renuka Kumari रेणुका कुमारी | फेंसिंग | B.C Anx-2 | एम0ए0 | पंचायती राज विभाग | |
| 11 | 227 | Santoshi Kumari संतोषी कुमारी | कबड्डी | B.C Anx-2 | बी0ए0 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | |
| 12 | 177 | Manisha Kumari मनीषा कुमारी | कबड्डी | Gen. | बी0ए0 | आयुक्त कार्यालय, भागलपुर | |
| 13 | 454 | Ravi Bhusan Prasad रवि भूषण प्रसाद | तैराकी | B.C Anx-2 | बी0कॉम0 | आयुक्त कार्यालय, पटना | |

3. उक्त अभ्यर्थियों के मूल आवेदन सभी अनुलग्नक (शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि, जाति प्रमाण-पत्र, खेल विधा प्रमाण-पत्र की छाया प्रति) सहित संलग्न कर भेजी जा रही है।

4. नियुक्ति के पूर्व उक्त सभी अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण-पत्रों की जाँच कराकर अपने स्तर से संतुष्ट हो लेना चाहेंगे। जिन प्रमाण-पत्रों के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित कर नियुक्ति हेतु अनंशसा की गयी है, उनके मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन आवश्यक है और इसे किसी भी परिस्थिति में waive नहीं किया जा सकता है। अनुशंसित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की प्रकाशित अंतिम मेधा सूची, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट (<http://www.gad.bih.nic.in>) के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है, में उन सभी प्रतियोगिताओं का उल्लेख है, जिसके आधार पर संबंधित खिलाड़ियों का चयन किया गया है। यदि उक्त के अतिरिक्त शेष खेल प्रमाण-पत्रों, जिन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से स्पष्ट संबंध नहीं है, से संबंधित मूल खेल प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में उससे संबंधित खेल प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त कर उनकी नियुक्ति औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ की जा सकती है कि संबंधित अभ्यर्थी वांछित मूल प्रमाण-पत्र एक माह के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे। किसी तरह की विसंगति की स्थिति में इस विभाग को तुरत अवगत कराया जायेगा।

5. विभागीय संकल्प संख्या 2082, दिनांक 01.04.2003 एवं पत्र संख्या 1859, दिनांक 08.07.2006 में विहित प्रावधानों के अनुपालन के उपरांत ही पदस्थापन के विभाग द्वारा नियुक्ति कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

6. पदस्थापन के विभाग/निदेशालय में योगदान की तिथि से वेतन एवं भत्ते देय होंगे। सभी संबंधित खिलाड़ियों की नियुक्ति उनके योगदान की तिथि से किये जाने का आदेश नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत होगा।

7. उक्त अनुशंसित उत्कृष्ट खिलाड़ियों के योगदान दिये जाने के पश्चात उनकी कार्यालय संबंधी कार्यों की दक्षता हेतु Induction Training बिपार्ड, फुलवारीशरीफ, पटना से कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि Induction Training में भाग लेने के लिए सभी संबंधित विभाग/निदेशालय द्वारा दिनांक 12.04.2012 से बिपार्ड, फुलवारीशरीफ, पटना में उक्त खिलाड़ियों को प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

8. उक्त प्रस्ताव में मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
अजय कुमार चौधरी,
संयुक्त सचिव।

पत्रांक- 9/नि०-01-01/2011-सा०प्र० 3919

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना/लक्खीसराय/दरभंगा/बक्सर/भागलपुर/सिवान।

पटना, दिनांक 14 मार्च, 2012

विषय:- बिहार राज्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों की निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर मेधा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा।

महाशय,

बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2009 (संशोधन नियमावली, 2011) के नियम 4.2 के आलोक में गठित चयन समिति से विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्ट अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है।

2. चयन समिति की प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उक्त नियमावली, नियम-4.7 में प्रदत्त शक्तियों के तहत निम्नांकित अभ्यर्थियों को बैंड वेतन 5200-20200 रु० एवं ग्रेड पे-1900 रु० में क्षेत्रीय (समाहरणालय) लिपिकीय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु उनके नाम के सामने स्तम्भ-7 में अंकित कार्यालय आवंटित किया जाता है:-

| क्रम संख्या | फॉर्म संख्या | नाम | खेल विधा का नाम | केटेगरी | शैक्षणिक योग्यता | आवंटित विभाग का नाम | अभ्युक्ति |
|-------------|--------------|---|-----------------|---------|------------------|--|-----------|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1 | 06 | Ashutosh Kumar आशुतोष कुमार | एथलेटिक्स | Gen. | आई.एस.सी. | जिला पदाधिकारी, लक्खीसराय का कार्यालय | |
| 2 | 174 | Mukesh Kumar Singh मुकेश कुमार सिंह | एथलेटिक्स | Gen. | मैट्रिक | जिला पदाधिकारी, पटना का कार्यालय | |
| 3 | 678 | Anil Kumar अनिल कुमार | बॉक्सिंग | BC II | आई.ए. | जिला पदाधिकारी, पटना का कार्यालय | |
| 4 | 175 | Sanjay Sahni संजय सहनी | बॉक्सिंग | BC II | मैट्रिक | जिला पदाधिकारी, दरभंगा का कार्यालय | |
| 5 | 595 | Arun Kumar Singh अरुण कुमार सिंह | डिसेबल्ड | Gen. | मैट्रिक | जिला पदाधिकारी, पटना का कार्यालय | |
| 6 | 226 | Rina Kumari रीना कुमारी | कबड्डी | BC II | आई.ए. | जिला पदाधिकारी, पटना का कार्यालय | |
| 7 | 249 | Chandni Kumari चाँदनी कुमारी | कबड्डी | Gen. | आई.ए. | जिला पदाधिकारी, पटना का कार्यालय | |
| 8 | 438 | Subodh Kumar Rai सुबोध कुमार राय | पावर लिफ्टिंग | Gen. | आई.ए. | जिला पदाधिकारी, बक्सर का कार्यालय | |
| 9 | 506 | Dependra Kumar Mishra दीपेन्द्र कुमार मिश्रा | राईफल सूटिंग | Gen. | आई.ए. | जिला पदाधिकारी, भागलपुर का कार्यालय | |
| 10 | 633 | Vivekanand विवेकानन्द | वॉलीबाल | Gen. | मैट्रिक | जिला पदाधिकारी, सिवान का कार्यालय | |

3. उक्त अभ्यर्थियों के मूल आवेदन सभी अनुलग्नक (शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि, जाति प्रमाण-पत्र, खेल विधा प्रमाण-पत्र की छाया प्रति) सहित संलग्न कर भेजी जा रही है।

4. नियुक्ति के पूर्व उक्त सभी अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण-पत्रों की जाँच कराकर अपने स्तर से संतुष्ट हो लेना चाहेंगे। जिन प्रमाण-पत्रों के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित कर नियुक्ति हेतु अनंशसा की गयी है, उनके मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन आवश्यक है और इसे किसी भी परिस्थिति में waive नहीं किया जा सकता है। अनुशंसित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की प्रकाशित अंतिम मेधा सूची, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट (<http://www.gad.bih.nic.in>) के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है, में उन सभी प्रतियोगिताओं का उल्लेख है, जिसके आधार पर संबंधित खिलाड़ियों का चयन किया गया है। यदि उक्त के अतिरिक्त शेष खेल प्रमाण-पत्रों, जिन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से स्पष्ट संबंध नहीं है, से संबंधित मूल खेल प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में उससे संबंधित खेल प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त कर उनकी नियुक्ति औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ की जा सकती है कि संबंधित अभ्यर्थी वांछित मूल प्रमाण-पत्र एक माह के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे। किसी तरह की विसंगति की स्थिति में इस विभाग को तुरंत अवगत कराया जायेगा।

5. विभागीय संकल्प संख्या 2082, दिनांक 01.04.2003 एवं पत्र संख्या 1859 दिनांक 08.07.2006 में विहित प्रावधानों के अनुपालन के उपरांत ही पदस्थापन के कार्यालय द्वारा नियुक्ति कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

6. पदस्थापन के कार्यालय में योगदान की तिथि से वेतन एवं भत्ते देय होंगे। सभी संबंधित खिलाड़ियों की नियुक्ति उनके योगदान की तिथि से किये जाने का आदेश नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत होगा।

7. उक्त अनुशंसित उत्कृष्ट खिलाड़ियों के योगदान दिये जाने के पश्चात उनकी कार्यालय संबंधी कार्यों की दक्षता हेतु Induction Training बिपार्ड, फुलवारीशरीफ, पटना से कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि Induction Training में भाग लेने के लिए सभी संबंधित कार्यालय द्वारा दिनांक 12.04.2012 से बिपार्ड, फुलवारीशरीफ, पटना में उक्त खिलाड़ियों को प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

8. उक्त प्रस्ताव में मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
अजय कुमार चौधरी,
संयुक्त सचिव।

पत्रांक— 9/नि०-01-01/2011-सा०प्र० 4362

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक 23 मार्च, 2012

विषय:— बिहार राज्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों की निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर मेधा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवंटन में संशोधन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 3920, दिनांक 14.03.2012 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कबड्डी खेल विधा से सुश्री मनीषा कुमारी का बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु आयुक्त कार्यालय, भागलपुर आवंटित किया गया था। उक्त आवंटन इनकी स्नातक योग्यता के आधार पर की गयी थी, जबकि इनकी योग्यता स्नातक से न्यून (आई0ए0 उत्तीर्ण) है।

अतएव सुश्री मनीषा कुमारी का आवंटन संशोधित करते हुए बैंड वेतन 5200-20200 रु० एवं ग्रेड पे-1900 रु० में क्षेत्रीय (समाहरणालय) लिपिकीय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु उनके नाम के सामने स्तम्भ-7 में अंकित कार्यालय आवंटित किया जाता है:—

| क्रम संख्या | फॉर्म संख्या | नाम | खेल विधा का नाम | केटेगरी | शैक्षणिक योग्यता | आवंटित विभाग का नाम | अभ्युक्ति |
|-------------|--------------|--------------------------------|-----------------|---------|------------------|--|-----------|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1 | 177 | Manisha Kumari मनीषा कुमारी | कबड्डी | Gen. | आई0ए0 | जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ का कार्यालय | |

3. उक्त अभ्यर्थी के मूल आवेदन सभी अनुलग्नक (शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि, जाति प्रमाण-पत्र, खेल विधा प्रमाण-पत्र की छाया प्रति) सहित संलग्न कर भेजी जा रही है।

4. नियुक्ति के पूर्व उक्त अभ्यर्थी के सभी प्रमाण-पत्रों की जाँच कराकर अपने स्तर से संतुष्ट हो लेना चाहेंगे। जिन प्रमाण-पत्रों के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित कर नियुक्ति हेतु अनंशसा की गयी है, उनके मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन आवश्यक है और इसे किसी भी परिस्थिति में waive नहीं किया जा सकता है। अनुशंसित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की प्रकाशित अंतिम मेधा सूची, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट (<http://www.gad.bih.nic.in>) के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है, में उन सभी प्रतियोगिताओं का उल्लेख है, जिसके आधार पर संबंधित खिलाड़ियों का चयन किया गया है। यदि उक्त के अतिरिक्त शेष खेल प्रमाण-पत्रों, जिन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से स्पष्ट संबंध नहीं है, से संबंधित मूल खेल प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में उससे संबंधित खेल प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त कर उनकी नियुक्ति औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ की जा सकती है कि संबंधित अभ्यर्थी वांछित मूल प्रमाण-पत्र एक माह के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे। किसी तरह की विसंगति की स्थिति में इस विभाग को तुरत अवगत कराया जायेगा।

5. विभागीय संकल्प संख्या 2082, दिनांक 01.04.2003 एवं पत्र संख्या 1859, दिनांक 08.07.2006 में विहित प्रावधानों के अनुपालन के उपरांत ही पदस्थापन के कार्यालय द्वारा नियुक्ति कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

6. पदस्थापन के कार्यालय में योगदान की तिथि से वेतन एवं भत्ते देय होंगे। सभी संबंधित खिलाड़ियों की नियुक्ति उनके योगदान की तिथि से किये जाने का आदेश नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत होगा।

7. उक्त अनुशंसित उत्कृष्ट खिलाड़ी के योगदान दिये जाने के पश्चात उनकी कार्यालय संबंधी कार्यों की दक्षता हेतु Induction Training बिपार्ड, फुलवारीशरीफ, पटना से कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि Induction Training में भाग लेने के लिए सभी संबंधित कार्यालय द्वारा दिनांक 12.04.2012 से बिपार्ड, फुलवारीशरीफ, पटना में उक्त खिलाड़ियों को प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

8. उक्त प्रस्ताव में मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
अजय कुमार चौधरी,
संयुक्त सचिव।

पत्रांक- 9/नि०-01-01/2011-सा०प्र० 4363

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक 23 मार्च, 2012

विषय:- बिहार राज्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों की निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर मेधा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवंटन में संशोधन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 3919, दिनांक 14.03.2012 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कबड्डी खेल विधा से सुश्री रीना कुमारी का क्षेत्रीय (समाहरणालय) लिपिकीय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु जिला पदाधिकारी, पटना का कार्यालय आवंटित किया गया था। उक्त आवंटन इनकी अन्तर स्नातक योग्यता के आधार पर की गयी थी, जबकि इनकी योग्यता स्नातक है।

अतएव सुश्री रीना कुमारी का आवंटन संशोधित करते हुए बैंड वेतन 5200-20200 रु० एवं ग्रेड पे-1900 रु० में बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु उनके नाम के सामने स्तम्भ-7 में अंकित विभाग आवंटित किया जाता है:-

| क्रम संख्या | फॉर्म संख्या | नाम | खेल विधा का नाम | केटेगरी | शैक्षणिक योग्यता | आवंटित विभाग का नाम | अभ्युक्ति |
|-------------|--------------|----------------------------|-----------------|---------|------------------|---------------------------------|-----------|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1 | 226 | Rina Kumari रीना कुमारी | कबड्डी | BC II | बी०ए० | स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना | |

3. उक्त अभ्यर्थी के मूल आवेदन सभी अनुलग्नक (शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि, जाति प्रमाण-पत्र, खेल विधा प्रमाण-पत्र की छाया प्रति) सहित संलग्न कर भेजी जा रही है।

4. नियुक्ति के पूर्व उक्त अभ्यर्थी के सभी प्रमाण-पत्रों की जाँच कराकर अपने स्तर से संतुष्ट हो लेना चाहेंगे। जिन प्रमाण-पत्रों के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित कर नियुक्ति हेतु अनंशसा की गयी है, उनके मूल प्रमाण-पत्रों का

सत्यापन आवश्यक है और इसे किसी भी परिस्थिति में waive नहीं किया जा सकता है। अनुशंसित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की प्रकाशित अंतिम मेधा सूची, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट (<http://www.gad.bih.nic.in>) के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है, में उन सभी प्रतियोगिताओं का उल्लेख है, जिसके आधार पर संबंधित खिलाड़ियों का चयन किया गया है। यदि उक्त के अतिरिक्त शेष खेल प्रमाण-पत्रों, जिन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से स्पष्ट संबंध नहीं है, से संबंधित मूल खेल प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में उससे संबंधित खेल प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त कर उनकी नियुक्ति औपबधिक रूप से इस शर्त के साथ की जा सकती है कि संबंधित अभ्यर्थी वांछित मूल प्रमाण-पत्र एक माह के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे। किसी तरह की विसंगति की स्थिति में इस विभाग को तुरत अवगत कराया जायेगा।

5. विभागीय संकल्प संख्या 2082, दिनांक 01.04.2003 एवं पत्र संख्या 1859, दिनांक 08.07.2006 में विहित प्रावधानों के अनुपालन के उपरांत ही पदस्थापन के कार्यालय द्वारा नियुक्ति कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

6. पदस्थापन के कार्यालय में योगदान की तिथि से वेतन एवं भत्ते देय होंगे। सभी संबंधित खिलाड़ियों की नियुक्ति उनके योगदान की तिथि से किये जाने का आदेश नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत होगा।

7. उक्त अनुशंसित उत्कृष्ट खिलाड़ी के योगदान दिये जाने के पश्चात उनकी कार्यालय संबंधी कार्यों की दक्षता हेतु **Induction Training** बिपार्ड, फुलवारीशरीफ, पटना से कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि **Induction Training** में भाग लेने के लिए सभी संबंधित कार्यालय द्वारा दिनांक 12.04.2012 से बिपार्ड, फुलवारीशरीफ, पटना में उक्त खिलाड़ियों को प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

8. उक्त प्रस्ताव में मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
अजय कुमार चौधरी,
संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 09—571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

अधीक्षक का कार्यालय
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

निविदा सूचना

सं० 6173—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना में वित्तीय वर्ष 2012-13 में विभिन्न विभागों के उपयोग में आने वाले मशीनों के लिए Chemicals, Reagents, consumables, disposable items and Supporting miscellaneous item के कय हेतु बिहार वाणिज्यकर में निर्बंधित निर्माताओं / प्राधिकृत विक्रेताओं से मुहरबंद कम्प्युटराईज / टंकित निविदा इस निविदा प्रकाशन तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर निर्बंधित डाक/ स्पीड पोस्ट द्वारा सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ आमंत्रित किया जाता है। बिहार के बाहर के फर्म जो बिहार वाणिज्य कर में निर्बंधित नहीं हैं, वे भी निविदा में इस शर्त के साथ भाग ले सकते हैं परन्तु दर अनुमोदन के पश्चात् कय आदेश के पूर्व उन्हें बिहार वाणिज्यकर में निबंधन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका आदेश रद्द कर दिया जायेगा एवं द्वितीय अनुमोदित दर वाले निविदा दाता को आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा। निविदा दो भाग में होगी तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में मुहरबन्द होगी और लिफाफे के उपर Chemicals, Reagents, consumable, disposable item and Supporting miscellaneous item हेतु तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। निविदा सिर्फ निर्बंधित डाक या स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदा, निर्बंधित डाक या स्पीड पोस्ट के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त निविदा या फटा निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगा। विस्तृत सूचना एवं सामग्रियों की सूची का विवरणी इत्यादि www.prdbihar.gov.in & www.pmch.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है या कार्यालय अवधि में किसी भी दिन आवेदन देकर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। तकनीकी निविदा के साथ सभी अभिलेखों के साथ-साथ 100000/- (एक लाख) रुपये का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जमा करना होगा। आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी। निविदा की सभी पृष्ठों को पृष्ठांकित करते हुए विस्तृत उल्लेख अगसारण पत्र पर अवश्य रूप से अंकित होना चाहिए।

स्थान :- पटना

दिनांक :- 04 मई 2012

(ह०)—अस्पष्ट,
अधीक्षक ।

TERMS & CONDITIONS

1. Tender will be of two type (1) Technical bid & (2) Financial Bid .which will be sent in two separate and sealed Envelope. If not the same will be rejected. On the Envelope clearly mention Technical Bid and Financial Bid.
2. Tenderer will write his Name with full address and Telephone Number.
3. All relevant document attached in technical Bid, such as authority letter (Against the particular tender) , Pan card , quality certificate, sales Tax registration , Sales tax Clearance certificate (As per circular) , Drug licensees Etc .
4. Superintendent reserve rights to rejects any tender without assigning any reason.
5. Tender should be Computer typed only. Handwritten and overwriting tender will be rejected. and page no will be mention in every page and the same has been declared on forwarding letter of the tender.
6. VAT Tax & I.T. will be deducted from the bill at source and deposited in Govt. account as per govt. norms.

7. Only standard manufacturer and company will be accepted .Quality of Chemicals, Reagents, consumables ,disposable items and Supporting miscellaneous items and rate approve of the items will be decided by the purchase committee only.
8. In financial tender only rate will be given with and without tax with name of manufacturer and pack size.
9. If the awarded supplier is unable to supply at the L1 rate in given time frame than award can be given to L2 bidders by purchase committee .
10. The Committee reserves the right to cancel the bid at any time without assigning any reason. for further enquires contact superintendent office hours on working days
11. In case the selected company firm declines to take up the task at the quoted and approved rates, it would be barred from applying for any tender from PMCH, Patna and will be recommended for black listing by govt of Bihar .also the tender /security money will be forfeited
12. Any matter according of dispute leading to court case will be within preview of Patna district only.
13. Tenderer who will quoted the rate of close system reagent will attach the company rate of those reagent in their Financial bid and other item rates will not more than MRP/ market rate.
14. Tender will attached their affidavit through 1st class Executive magistrate to insure the purchase committee that the rate quoted by them is less than M.R.P for other items and for the reagent of close system is not more than rate to company rate. In future if any question will arise , tenderer will be fully responsible for that.
15. Product should be ISO/FDA/CE/ other national or international Quality certification approved copy of certificate should be enclose with technical bid.
16. Tenderer should be registered in Bihar sales Tax. If they are not registered at the time of tender, then after selection they have to be registered with Bihar sale tax before the order is placed.
17. The Tendered should have to Deposited as Rs. 1,00,000/- (One Lac) rupees only as Earnest money with the Technical Tender in the form of Bank Draft. In favour of SUPERINTENDENT, P.M.C.H., Patna.

Place: Patna
Date: 4th May 2012

Sd/-Illegible,
Superintendent.

List of Reagents, consumables, disposable items and supporting miscellaneous item**1. Reagent for Liver Kidney machine (Gambro, Sweden)**

| |
|------------------------------|
| Kit for liver kidney (Mars) |
| PM Kits |

2. CRRT machine (Gambro ,Sweden)

| |
|---------------------------------------|
| Kit for CRRT (Prisma Flex M100 set) |
| Kit for CRRT (Prisma Flex HF 20) |
| Adsorba (300c) |
| Kit for TPE (2000N) |
| CRRT promosal bag |
| PM kit |

3. Dialysis reprocessing maching (Minntech /USA) (Renatron II)

| |
|--|
| Dialysis reprocessing sterilent (Renaline Disinfectant and sterilent) |
| Cap for reprocessing machine |
| PM Kit |

4. Other kits required

| |
|---|
| NGAL KIT |
| PM Kit for Dialysis machine |
| Cartridge for RO plant |
| PM kit for R.O plant |
| Urine Albumin Corvete & Control |
| P.D cyler Fluid (Fresenius) |
| P.M Kit for P.D Cyler machine |
| P.M kit for Ventilator |
| Dialyser & tubing |
| Haemo dialysis Fluid A |
| Haemo dialysis Fluid B |
| Microcuvette for hemoglobin 301 with lancet |
| Microcuvette for Albumin 201 with lancet |
| Microcuvette for Glucose with lancet |
| Microcuvette for WBC with lancet |

5. REAGENT FOR CYCLOSPORINES ASSAY MACHINE & IRON PROFILE MACHINE (ROCHE) (Cobas Intergra 400 +)

| GMMI NO. | PARAMETER |
|-------------------|-------------|
| Substrates | |
| 03183688122 | ALBUMIN BCG |
| 20766682322 | AMMONIA |
| 20737496322 | BIL-D |
| 03261638190 | BIL-T |
| 20763128322 | CALCIUM |

| | |
|----------------|---|
| 03039773190 | CHOLESTEROL HiCo |
| 03289923190 | CO2-L |
| 04810716190 | CREATININE J |
| 03263991190 | CREATININE PLUS |
| 03183777190 | ETHANOL |
| 04537939190 | FRUCTOSEAMINE |
| 04404483190 | GLUCOSE HK |
| 20753521322 | HbA1c |
| 04399803190 | HDL-C |
| 03183696122 | IRON |
| 03183700190 | LACTATE |
| 03038866322 | LDL-C |
| 20737593322 | MAGNESIUM |
| 03183793122 | PHOSPHORUS |
| 20767107322 | TG |
| 03183734190 | TOTAL PROTEIN |
| 04536355190 | UIBC |
| 04460715190 | UREA |
| 03183807190 | URIC ACID |
| Enzymes | |
| 20737321322 | ACP |
| 03333701190 | ALP |
| 20764957322 | ALT / SGPT |
| 03183742122 | AMYLASE |
| 20764949322 | AST / SGOT |
| 04498577190 | CHOLINESTERASE |
| 04524977190 | CK |
| 04525299190 | CK-MB |
| 04628918190 | CK-NAC |
| 03002721122 | GGT |
| 11929992216 | GLDH + (04593138190 - Cobas c pack multi) |
| 11876937216 | HBDH + (04593138190 - Cobas c pack multi) |
| 03004732122 | LDH |
| 03029590322 | LIPASE |
| 20766623322 | p-AMYLASE |
| HIA's | |
| 03333795190 | a1 ACID GLYCOPROTEIN |
| 03005771322 | a1 ANTITRYPSIN |
| 04593183190 | a1 MICROGLOBULIN |
| 04469658190 | ALBUMIN-T TQ |
| 20750948322 | ANTI-STREPTOLYSIN |
| 03036081190 | ANTI-THROMBIN III |
| 03032566122 | APO-A |
| 03032574122 | APO-B |
| 03001938322 | C3c |
| 03001962322 | C4 |
| 20764663322 | CERULOPLASMIN |

| | |
|-----------------|------------------|
| 04628918190 | CRP HS |
| 20764930322 | CRP LATEX |
| 03001245322 | D-DIMER |
| 03528995190 | FERRITIN |
| 03005593322 | HAPTOGLOBIN |
| 03507343190 | IgA |
| 03507432190 | IgG |
| 03507190190 | IgM |
| 04593183190 | KAPPA |
| 04593183190 | LAMBDA |
| 03001881322 | LPA LX |
| 04580010190 | MYOGLOBIN |
| 20764655322 | PRE-ALBUMIN |
| 20764574322 | RF II |
| 20763454122 | sTfR |
| 03333825190 | TP UR / CSF |
| 03015050122 | TRANSFERRIN |
| Hormones | |
| 20739006322 | TOTAL T4 |
| 11731394122 | T-UPTAKE |
| TDM's | |
| 20767174322 | ACETAMINOPHEN |
| 20767166322 | AMIKACIN |
| 20737828322 | CARBAMAZEPINE |
| 04340892190 | CYCLOSPORINE II |
| 04975723190 | CYSTATIN C |
| 20753599322 | DIGITOXIN |
| 20737836322 | DIGOXIN |
| 20737844322 | GENTAMICIN |
| 20757241322 | LIDOCAINE |
| 04357213190 | MPA |
| 20737852322 | NAPA |
| 20738042122 | PHENCYCLIDINE |
| 20737860322 | PHENOBARBITAL |
| 20737879322 | PHENYTOIN |
| 20737887322 | PRIMADONE |
| 20737895322 | PROCAINAMIDE |
| 20753602122 | PROPOXYPHENE |
| 20737909322 | QUINIDINE |
| 20753580322 | SALICYLATE |
| 20737917322 | THEOPHYLLINE |
| 20737925322 | TOBRAMYCIN |
| 20737933322 | VALPROIC ACID |
| 20737941322 | VANCOMYCIN |
| Drug's | |
| 20737968122 | AMPHETAMINES |
| 04490754190 | BARBITURATE PLUS |

| | |
|------------------------------|--|
| 20766690322 | BENZODIAZEPINES |
| 20737984122 | BENZODIAZEPINES |
| 04491009190 | CANNOBINOIDS |
| 20737992122 | COCAINE |
| 03800130190 | COCAINE II |
| 03183777190 | ETHANOL |
| 20763284122 | LSD |
| 20738034122 | METHADONE |
| 20753610122 | METHAQUALONE |
| 04490894190 | OPIATES |
| ISE | |
| 10825468001 | ISE Sodium |
| 10825441001 | ISE Potassium |
| 03246353001 | ISE Chloride |
| Accessory Consumables | |
| 04489357190 | Cobas c Diluent - NaCl - 9% |
| 04593183190 | Cobas c Pack Multi |
| 04857933190 | Cobas c Pack opening tool |
| 20754765322 | Cobas Integra Cleaner |
| 20764337322 | Cobas Integra Cleaner Cassette |
| 21043862001 | Cobas Integra Microcuvettes |
| 04489365190 | Serum Index |
| ISE Consumables | |
| 03246353001 | Cobas Chloride Electrode |
| 04522630190 | Cobas Integra ISE Diluent |
| 04880994190 | Cobas ISE Deprotienzer |
| 11298500190 | Cobas ISE Cleaining Solution - Sys Clean |
| 11489828216 | Cobas ISE Compensator |
| 04522320190 | Cobas ISE Internal Standard |
| 11360981216 | Cobas ISE Reference Electrolyte |
| 11183982216 | Cobas ISE Standard High |
| 11183974216 | Cobas ISE Standard Low |
| 10825441001 | Cobas Potassium Electrode |
| 03149501001 | Cobas Reference Electrode |
| 10825468001 | Cobas Sodium Electrode |
| Calibrators | |
| 10759350190 | CFAS 12x3 ml |
| 11447394216 | CFAS CK-MB |
| 04975901190 | CFAS Cystatin C |
| 11986376122 | CFAS DAT Quakitative CAL [Cal1,2,4: 2x3ml Cal3: 2x5ml] |
| 12172623122 | CFAS Lipids |
| 03001318122 | CFAS Lpa |
| 03555941190 | CFAS PAC |
| 11355279216 | CFAS Proteins |
| 03121305122 | CFAS PUC |
| 02052644322 | CRP T Standard |
| 11556495216 | D-Dimer Calibrator |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 20751847122 | Ferritin T Standard |
| 20755664322 | HBA1C Calibrator |
| 04580044190 | CFAS Myoglobin |
| 20751995190 | NH3/ETH/CO2 Calibrator |
| 11098993122 | Precimat Fructosamine |
| 03304671190 | Preciset DAT PLUS I - Cal 1 to 6 |
| 03304680190 | Preciset DAT PLUS II |
| 03753964190 | Preciset DAT THC |
| 03753972190 | Preciset DAT THC 20 |
| 03375790190 | Preciset TDM 1 - Cal 1 to 6 |
| 03375781190 | Preciset TDM 2 - Cal 1 to 6 |
| 20737267322 | Serumproteins T-Standard |
| 04357221190 | Total MPA Calibrators |
| Controls | |
| 20753009190 | Ammonia/Ethanol/CO2 - Abnormal |
| 20752401190 | Ammonia/Ethanol/CO2 - Normal |
| 20766321322 | CRP T Control N |
| 04975936190 | Cystatin C Control Set |
| 11556495216 | D-Dimer Control I/II |
| 20751863122 | Ferritin T / Myoglobin Control |
| 20764833322 | HbA1C Control N |
| 20764841322 | HbA1C Control P |
| 11660993216 | LP(a) Control Set |
| 10557897122 | Plasma Proteins T Control |
| 11447378122 | Precinorm CK-MB |
| 11098985122 | Precinorm Fructosamine |
| 10781827122 | Precinorm Lipids |
| 10557897122 | Precinorm Protein |
| 10171743122 | Precinorm U |
| 10171778122 | Precinorm U |
| 11174118122 | Precipath Fructosamine |
| 11778552122 | Precipath HDL/LDL-C |
| | Precipath U |
| 10171760122 | Precipath U |
| 11333127122 | Preipath Protein |
| 3005496122 | RF Control Set |
| 04357230190 | Total MPA Controls (3 Levels) |
| Other Instrument Accessories | |
| 04813707001 | Halogen Lamp |
| 04593138190 | Cobas c pack multi |

6. REAGENT FOR COAGULATION ANALYZER (ACL 7000)

| <i>Reagents</i> | <i>DESCRIPTION</i> |
|-----------------|--------------------------|
| 00008469810 | PT-Fib HS Plus (PT TEST) |
| 00020006800 | SynthASil (APTT TEST) |
| 00008469110 | Fibrinogen Clauss |

| | |
|-------------|---|
| 00020002500 | Liquid Antithrombin ACL Classic + Advance + TOP |
| 00020008500 | D-dimer ACL Systems (AUTOMATED METHOD) |
| 00020004800 | SCT (Silica Clotting Time for Lupus Anticoagulants) |
| 00020008000 | LAC Screen (For Lupus Anticoagulants) |
| 00020008200 | LAC Confirm (For Lupus Anticoagulants) |
| 00020008700 | APCR-V |
| 00008468310 | ProClot (Protein C Clotting) |
| 00020002800 | ProS (Protein S Clotting) |
| 00020007800 | Homocysteine |
| 00020009400 | Heparin Xa |
| 00020009000 | Plasminogen |
| 00020009200 | Plasmin Inhibitor |
| 00008466050 | Factor II |
| 00008466150 | Factor V |
| 00008466250 | Factor VII |
| 00008466450 | Factor VIII |
| 00008466550 | Factor IX |
| 00008466350 | Factor X |
| 00008466650 | Factor XI |
| 00020201200 | Factor XII |
| 00009756904 | Reference Emulsion |
| | Calibration Plasma |
| | Normal Plasma |
| | High Plasma |
| | Simple Diluents |
| | Factor Diluents |
| 00006800000 | Rotors |
| | PM kit |
| | Control abnormal level |
| | Sample cup 0.5 ml |
| | Sample Cup 2ml |

7. REAGENT FOR ERYTHROPOITIN ASSAY MACHINE(CLIA)

| New Description |
|--------------------------------|
| ACTH KIT |
| CORTISOL KIT |
| EPO KIT |
| FERRITIN KIT |
| FOLIC ACID KIT |
| VITAMIN B12 KIT |
| IML. CALCITONIN KIT |
| CK-MB KIT |
| IML. HOMOCYSTEINE KIT |
| ALBUMIN KIT |
| C-PEPTIDE KIT |
| INSULIN KIT |
| IGFBP-3 KIT |
| IML. CMV IGG |
| IML. H. PYLORI IGG SEMI-QUANT. |
| IML. ANTI-HBC IGM KIT |

| |
|----------------------------------|
| IMM.HBSAG CONFIRMATORY KIT |
| IML. HERPES IGG KIT |
| **IML. IL6 MONO/POLY KIT |
| IML. CARBAMAZEPINE KIT |
| DIGOXIN KIT |
| IML. PHENYTOIN KIT |
| THEOPHYLLINE KIT |
| IML. VALPROIC ACID KIT |
| AFP (SEQUENTIAL) KIT |
| DHEA SULFATE KIT 100T |
| ESTRADIOL KIT 100T |
| FSH KIT 100T |
| LH KIT 100T |
| PROGESTERONE KIT |
| PROLACTIN KIT |
| FREE T3 KIT 500T |
| T3 KIT 500T |
| FREE T4 KIT 500T |
| TOTAL T4 KIT 500T |
| TBG KIT 100T |
| THYROGLOBULIN KIT 500T |
| IML. ANTI-THYROGLOBULIN KIT 500T |
| ANTI-TPO KIT 500T |
| THIRD GENERATION TSH 500T |
| CEA KIT 100T |
| THIRD GENERATION PSA 500T |
| IML. TURBO CK-MB KIT 100T |
| IML. TURBO MYOGLOBIN KIT 100T |
| *IML. TURBO NT-PROBNP KIT 100T |
| IML. TURBO INTACT PTH KIT 50T |
| IML. TURBO TROPONIN I KIT 500T |
| BETA-2-MICROGLOBULIN 100T |
| IML. ANTI-HBC IGM SAMPLE DILU |
| IML. ANTI-HBc IgM SAMPLE DILU |
| IML. CALCITONIN SPLE DILUENT |
| CORTISOL SAMPLE DILUE |
| ESTRADIOL SAMPLE DILU |
| FOLIC ACID SAMPLE DIL |
| IML. GASTRIN SAMPLE DILUENT |
| HBSAG SAMPLE DILUENT |
| CEA SAMPLE DILUENT |
| DHEA-SO4 SAMPLE DILUE |
| EPO SAMPLE DILUENT |
| FERRITIN SAMPLE DILUE |
| FSH SAMPLE DILUENT |
| HGH SAMPLE DILUENT |
| IGFBP-3 SAMPLE DILUEN |
| INSULIN SAMPLE DILUEN |
| T3 SAMPLE DILUENT |
| TOTAL T4 SAMPLE DILUE |
| THEOPHYLLINE SAMPLE D |

| |
|------------------------------|
| THYROGLOBULIN SAMPLE DILUENT |
| IMM.ANTI-TG SAMPLE DILUENT |
| Accessories |
| PROBE CLEANING |
| SAMPLE CUPS (1000) |
| SAMPLE CUP CAPS (1000) |
| WATER TEST KIT |
| SUBSTRATE MODULE (1000 t) |
| PROBEWASH |

8. REAGENT FOR BLOOD T.B MACHINE

| Cat No. | Description |
|---------|--------------------|
| 442192 | PLUS AEROBIC 50s |
| 442193 | PLUS ANAEROBIC 50s |
| 442194 | PEDS PLUS 50s |
| 442026 | MYCOSIS IC/F 25s |
| | PM kit |

9. REAGENT FOR CELL COUNTER 5 PART (Drew Scientific ,USA)

| Cat | EXCELL-2280 Reagents |
|---------------|-----------------------|
| 125000000004 | EX EZ Clean |
| 125000001720 | EX ISO Diluent |
| 1250000009500 | EX Lyse 0.5L |
| 1250000006010 | EX Flo Sheath Reagent |
| 1250000000399 | Ex Trol (Control) |
| | PM kit |

10. REAGENT FOR NEPHALOMETER (BECKMAN CULTER)

| GMMI | Item |
|--------|---------------------------|
| 446400 | IGC REAGENT |
| 446410 | APOLIPOPROTEIN A1 RGT |
| 446440 | KAPPA LIGHT CHAIN |
| 446450 | C3 REAGENT |
| 446460 | IGA REAGENT |
| 446470 | LAMBDA LIGHT CHAIN |
| 446480 | HAPTOGLOBIN RGNT |
| 446090 | C4 REAGENT KIT |
| 447020 | URINE IGG RENT |
| 447070 | RHEUMATOIB FACTOR |
| 447160 | FERRITIN RGNT |
| 447280 | CRP RGT 100 NM |
| 447410 | DIGOXIN REAGENT KIT IMAGE |
| 447440 | PAB |
| 447450 | KIT LPAX |
| 447460 | KIT IGA-CSF |

| | |
|-----------|--|
| 447470 | KIT IGM- CSF |
| 447480 | ANTIDNASE-B (DNB) |
| 447600 | ALBUMIN REAGENT |
| 447610 | IGM REAGENT |
| 447620 | ANTISTREPTOLYSIN O RGNT |
| 447630 | TRANSFERRIN RGNT |
| 447690 | MICROALBUMIN RGNT |
| 447700 | URINE TRANSFERRIN RGT |
| 447710 | ALPHA-1 MICROGLOBULIN RGT |
| 447720 | CERULOPLASMIN RGT |
| 447730 | APOLIPOROTEIN RGT |
| 447740 | ALPHA-ANTITRYPSIN RGT |
| 447750 | ANTITHROMBIN RGT |
| 447760 | PROPERDIN FACTOR B RGT |
| 447780 | ALPHA-1 ACID GLYCOPROTEIN |
| 447790 | ALPHA 2 MACROGLOBULIN RGT |
| 474620 | IMMAGE IGE 3X 50 RF KIT |
| 474630 | CRPH IMMAGE KIT |
| 822330118 | IMMAGE FREE K/L LC 2X100 TEST + CAL |
| 822330141 | ANTISERUM ANTI FIBRINOGEN |
| 822330284 | IMMAGE IGG SUBCLASSES |
| 844101510 | AB FIBRONECTINE UDR APS/IMAGE |
| 844101511 | AB FIBRONECTINE UDR ARRAY/IMAGE |
| A20424 | CYSTATIN C SG |
| A20634 | IMMUNOPARTICLES SYSTATIN C NOT AVAILABLE AS STANDALONE |
| 441400 | DRUG CAL 3 PLUS KIT 4X2 ML IMMAGE |
| 441470 | URINE PROTEIN CALIBATOR ARYIM 4X3 |
| 449560 | CALIBRATOR I ARRAY IMMAGE 4X3 ML |
| 449730 | CALIBRATOR III ARRAY IMMAGE 4X3 ML |
| 465365 | LP(A) CALIBATOR |
| 468429 | FERRITIN CALIB KIT 4X2 ML IMMAGE |
| 469283 | APOLIPROTEIN CAL 4X2 ML |
| 469700 | DRUG CAL 1.4X 2 ML |
| 469884 | DRUG CAL 2.4 X 2 ML IMMAGE |
| 469975 | CAL 5 PLUS ASO CRF RF (4 X2.1 ML) |
| 474020 | IGALC/ IGMLC CSF CALIB 2X3 ML |
| 663940 | KIT CALIBRATOR II ARRAY /ICS 4 X ML |
| A20426 | CALIBRATOR CYSTATIN |
| 622330142 | FIBRINOGEN CALIBRATOR C |
| 844101505 | CAL UDR FIBER /FIBEO/PLASMI/CL ING 3X1 ML |

| | |
|-----------|--|
| 844330427 | CALIBRATOR KAPPA LAMBDA PREDILUTED |
| 465376 | LIPOPROTEIN (A) (LPA) CAL (RUC) |
| A16489 | COMPLEMENT SYSTEM CALIBATOR |
| 663860 | ICS CONTROL SERUM 2.6 XML |
| A20427 | CONTROL SET CYSTATIN C |
| 844101506 | CTRL UDR FIBRI/FIBRO/PLASMI/CL/ ING 3X1ML |
| 844101508 | CTRL UDR IMMAGE /APS RBP 3X1 ML |
| 844330428 | FREE KAPPA LIGHT CHAINS CONTROL |
| 844330429 | FREE LAMBDA LIGHT CHAINS CONTROL |
| 446398 | IFE 3 SAMPLE /MASTERPLAN SLGP |
| A32542 | CONTROL LOW IGG SUBCLASSES |
| A32543 | CONTROL HIGH IGG SUBCLASSES |
| 447040 | BUFFER 2 (4X120ML) IMMAGE |
| 447050 | BUFFER 3 (4X120ML) IMMAGE |
| 447420 | KIT BUF4 IMMAGE |
| 447650 | BUFFER 1 (4X 120 ML) IMMAGE |
| 449770 | KIT REAGENT AUTO RHF REACTION 3X2 |
| 663600 | ASSAY SYSTEMS BUFFER REAGENT KIT |
| A20425 | CYSTATIN C BUFFER |
| A07420 | DAKO B2M REACTION BUFFER 25ML |
| 467640 | DILUENTS 1 |
| | wash solution |
| | SHCR cal set |
| 465290 | Urine control level 1 |
| 465300 | Urine control level 2 |
| 450120 | Vigil protein Level 1 |
| 450125 | Vigil protein Level 2 |
| 450130 | Vigil protein Level 3 |
| 450162 | Vigil Serology level 1 |
| 450163 | Vigil Serology level 2 |
| 450164 | Vigil Serology level 3 |
| 465440 | Vigil Serology Level C |
| 469905 | Vigil Lipid Level 1 |
| 465980 | Vigil Lipid Level 2 |
| 465981 | Vigil Lipid Level 3 |
| 465984 | Vigil Lipid Level 4 |
| 822330265 | Ferritin Control |
| A38656 | High Sensitivity cardiac _ reative Protein |

| | |
|-----------|---|
| A32543 | CONTROL HIGH IGG SUBCLASSES |
| 447040 | BUFFER 2 (4X120ML) IMAGE |
| 447050 | BUFFER 3 (4X120ML) IMAGE |
| 447420 | KIT BUF4 IMAGE |
| 447650 | BUFFER 1 (4X 120 ML) IMAGE |
| 449770 | KIT REAGENT AUTO RHF REACTION 3X2 |
| 663600 | ASSAY SYSTEMS BUFFER REAGENT KIT |
| A20425 | CYSTATIN C BUFFER |
| A07420 | DAKO B2M REACTION BUFFER 25ML |
| 467640 | DILUENTS 1 |
| | wash solution |
| | SHCR cal set |
| 465290 | Urine control level 1 |
| 465300 | Urine control level 2 |
| 450120 | Vigil protein Level 1 |
| 450125 | Vigil protein Level 2 |
| 450130 | Vigil protein Level 3 |
| 450162 | Vigil Serology level 1 |
| 450163 | Vigil Serology level 2 |
| 450164 | Vigil Serology level 3 |
| 465440 | Vigil Serology Level C |
| 469905 | Vigil Lipid Level 1 |
| 465980 | Vigil Lipid Level 2 |
| 465981 | Vigil Lipid Level 3 |
| 465984 | Vigil Lipid Level 4 |
| 822330265 | Ferritin Control |
| A38656 | High Sensitivity cardiac _ reative Protein |
| | Reagent disposable for Nephelometer machine |
| 470706 | Cuvette sectors (package of 13) |
| 470704 | Cuvette Reference |
| 470708 | Dilution segment (package of 100) |
| 447170 | Evaporation caps (package of 20) |
| 470070 | Mixer |
| 652730 | Sample cups 2 ml (pkg of 1000) |
| 651412 | Sample cups 0.5 ml (pkg of 1000) |
| 470717 | Sample rack (pkg of 4) 16 x 75 mm |
| 470718 | Sample rack (pkg of 4) 16 x 100 mm |
| 470719 | Sample rack (pkg of 4) 13 x 75 mm |
| 470720 | Sample rack (pkg of 4) 13 x 100 mm |
| 470724 | Syringe piston tips 250 ul (pkg 3) |
| 470725 | Syringe piston tips 500 ul (pkg 3) |
| 966602 | Printer cartridge black (HP 51629A) |
| | PM Kit |

11. REAGENT FOR ELECTROLYTE ANALYZER

| GMMI | Item |
|------------|--------------------|
| 3112349180 | SNAPPAK, 9180 9181 |
| 3110338180 | AVL K+ ELECTRODE |
| 3110419180 | AVL NA+ ELECTRODE |

| | |
|------------|---|
| 3110451180 | AVL CL- ELECTRODE |
| 3112284180 | REFERENCE ELECTRODE HOUSING 91XX |
| 3112306180 | REFERENCE ELECTRODE ISE 9180 |
| 3110362180 | SODIUM ELECTRODE CONDITIONER (125 ML) |
| 3110435180 | DEPROTEINIZER (125 ML) |
| 3113507035 | PAPER 9190 SERIES PRINTER (5/PKG) |
| 3074064001 | HARNESS MAINTUBING/MAINTENANCE KIT 9180 |
| 3112888180 | ISETROL ELECTROLYTE CTRL L 1-3 |
| | ASPIRATION PROBE |
| 3110249180 | URINE DILUENT (500 ML) |
| 3110354180 | AVL CA++ ELECTRODE |
| 3110664180 | AVL LI+ ELECTRODE |
| 4840283001 | URINE DILUENT (500 ML) IN. |
| 3069931001 | CAPILLARY ADAPTERS (1000 PCS) P.P tube |

12. REAGENT FOR ABG Machine (ICU) MAKE:- INSTRUMENTATION LAB

| | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | ABG Cartridge for 300 Test/450 test |
| 2 | ABG roll paper |

13. REAGENT FOR ABG Machine (I STAT)

| | |
|---|--------------------------|
| 1 | ABG Cartridge for I Stat |
| 2 | Lithium Battery |
| 3 | Printer Paper Roll |

14. REAGENT FOR ABG ANALYZER(ROCHE Cobas B121)

| Code | Description |
|------------|---|
| 3111571180 | MICRO ELECTRODE CL |
| 3111598180 | MICRO ELECTRODE NA+ |
| 3111628180 | MICRO ELECTRODE K+ |
| 3111644180 | MICRO ELECTRODE CA++ |
| 3111679180 | MICRO ELECTRODE PCO2 |
| 3111695180 | MICRO ELECTRODE PO2 |
| 3111717180 | MICRO ELECTRODE PH |
| 3111873180 | MICRO ELECTRODE REF |
| 3144054001 | W WASTE CONTAINER (2 PCS) |
| | MEASURING CHAMBER |
| 3144020001 | C2 CALIBRATION SOLUTION 2 (2x1200 ML) |
| 3144038001 | C3 FLUID PACK (1 PC) |
| 3144046001 | C1 CALIBRATION SOLUTION 1 (2x1750 ML) |
| 3273113001 | kit maintenance cobas b121 |
| 3113353180 | PAPER ROLL F.PRINTER STP211-144 (10 PCS) |
| 3321258001 | COMBITROL TS+, Level 1 |
| 3321266001 | COMBITROL TS+, Level 2 |
| 3321274001 | COMBITROL TS+, Level 3 |
| | ThB,so2 module |
| 4840429001 | PAPER ROLL f.PRINTER STP211-144, 10 pcs IN. |
| 4840453001 | OMNI PRINTER PAPER (6 ROLLS) IN. |
| 3113361180 | PRINTER PAPER OMNI/cobas b 221 (6 PCS) |
| 3086879001 | THB CUVETTE PACKED |
| 3111890180 | MICRO ELECTRODE JUN |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 3111911180 | OMNI GLU/LAC/UREA CASSETTE DISPATCH |
| 3111938180 | OMNI GLUCOSE CASSETTE DISPATCH |
| 3111954180 | OMNI GLU/LAC CASSETTE DISPATCH |
| 3112071180 | REF. CONTACT (RCON) OMNI/cobas b 221 |
| 3112098035 | CLEANING KIT for CL- ELECTRODE |
| 3111849035 | MICRO ELECTRODE DUMMY |
| | fill port |
| | docking mechanism of waste |
| | docking mechanism c1 |
| | docking mechanism C2 |
| | docking mechanism C3 |

15. REAGENT FOR ABG ANALYZER NEW –(COBAS B 221) (ROCHE)

| Code | Description |
|------------|------------------------------------|
| 3111571180 | MICRO ELECTRODE CL |
| 3111598180 | MICRO ELECTRODE NA+ |
| 3111628180 | MICRO ELECTRODE K+ |
| 3111644180 | MICRO ELECTRODE CA++ |
| 3111679180 | MICRO ELECTRODE PCO2 |
| 3111695180 | MICRO ELECTRODE PO2 |
| 3111717180 | MICRO ELECTRODE PH |
| 3111873180 | MICRO ELECTRODE REF |
| 3144054001 | W WASTE CONTAINER (2 PCS) |
| | MEASURING CHAMBER CONTACT (Mss) |
| | MEASURING CHAMBER ise |
| | MEASURING CHAMBER bg |
| 3260917184 | S1 RINSE SOLUTION (2 PCS) |
| 3260925184 | S2 FLUID PACK (1 PC) |
| 3260933184 | S3 FLUID PACK A (1 PC) |
| 3261085184 | MSS CASSETTE GLU/LAC/UREA |
| 3321193001 | COMBITROL PLUS B, LEVEL 1 (30 PCS) |
| 3321207001 | COMBITROL Plus B, Level 2 |
| 3321215001 | COMBITROL Plus B, Level 3 |
| 4840453001 | OMNI PRINTER PAPER (6 ROLLS) IN. |
| 3313743001 | Klt maintenance cobas b221 |
| | SD cartridge |
| | waste separator |
| | sample inlet path |
| | HB cuvette |
| | MC cartridge |
| | M con Electrode |
| | S con Electrode |
| 3086879001 | THB CUVETTE PACKED |
| | TND modul |
| | docking mechanism of waste |
| | docking mechanism of waste s1 |
| | docking mechanism of waste s2 |
| | docking mechanism of waste s3 |

16. REAGENT FOR CELL COUNTER 3 PART SYSMEX (KX-21)

| | |
|---|---------------------|
| 1 | Cell pack 20 lts x1 |
| 2 | Stromatolyser 3 x1 |

| | |
|---|---------------------------|
| 3 | Cell clean 50ml x 1 |
| 4 | 8 check tri level control |
| 5 | Thermal paper 60 mm |

17. REAGENT FOR CBC 5 PART SYSMEX (XT-2001)

| | |
|---|----------------------------|
| 1 | Stromatolyser 4 DL |
| 2 | Stromatolyser FB |
| 3 | Stromatolyser 4 DS |
| 4 | Sulfolyser SLS |
| 5 | Red search II diluents |
| 6 | Red Search II die |
| 7 | E. check tri level control |

18. REAGENT FOR SEMI AUTO ANALYSER AND AUTO ANALYZER (TRANSASIA)

| | |
|----|---|
| 1 | Plasma glucose kit |
| 2 | Blood urea nitrogen auto kit (BUN/GLDH/Berth lot kit) |
| 3 | Serum Creatinine (auto Kit) |
| 4 | Bilirubin total & direct |
| 5 | S.G.P.T(auto Kit) |
| 6 | S.G.O.T(auto Kit) |
| 7 | Alkaline phosphates (auto Kit) |
| 8 | Total Protein (auto Kit) |
| 9 | Albumin (auto Kit) |
| 10 | Micro protein kit (auto Kit) |
| 11 | Cholesterol (auto Kit) |
| 12 | Triglyceride (auto Kit) |
| 13 | HDL cholesterol Direct (auto Kit) |
| 14 | Uric Acid(auto Kit) |
| 15 | Serum Amylase(auto Kit) |
| 16 | Serum Lipase (auto Kit) |
| 17 | Calcium |
| 18 | Phosphorus |
| 19 | A.D.A (Auto kit) |
| 20 | Test tube disposable (Ria tube) |
| 21 | P.M kit for semi auto analyser |
| 22 | PM kit for auto analyzer |
| 23 | Contral for semi auto analyzer |
| 24 | Control for auto analyzer |
| 25 | Cartridge for auto analyzer and CBC 5 parts and all printer HP laser jet P 1007 CC 388A/88A |
| 26 | Paper for all printer |
| 27 | Colin for cleaning of Electronic equipment |
| 28 | Micro Albumin (auto Kit) |
| 29 | LDH Kit –Auto |
| 30 | A.P.P.T Kit |
| 31 | Fibrinogen kit |
| 32 | Prothombin kit |
| 33 | Anti streptolysin ‘O’ (auto Kit) |
| 34 | C. reactive protein kit (auto Kit) |
| 35 | Rheumatoid factors (auto Kit) |
| 36 | Anti streptolysin ‘O’ (latex) |

| | |
|----|--|
| 37 | C. reactive protein kit (latex) |
| 38 | Rheumatoid factors (latex) |
| 39 | CK-MB (auto Kit) |
| 40 | CK-NAC(auto Kit) |
| 41 | LDL –Cholesterol direct (auto Kit) |
| 42 | ERBA Norm/ normal control |
| 43 | ERBA Wash |
| 44 | ERBA path /Pathological control |
| 45 | ERBA XL wash |
| 46 | Glycoclyted hemoglobin kit |
| 47 | Widal test |
| 48 | RPR (VDRL) Test |
| 49 | PPD 10 TU & 5 TU |
| 50 | HDL/LDL Calibrator |
| 51 | Glycoclyted hemoglobin Calibrator |
| 52 | ASO calibrator |
| 53 | RF calibrator |
| 54 | CRF calibrator |
| 55 | Micro albumin calibrator |
| 56 | Lipids control |
| 57 | Micro albumin control level 1 |
| 58 | Micro albumin control level 2 |
| 59 | Glycoclyted Hemoglobin control level 1 |
| 60 | Glycoclyted Hemoglobin control level 2 |

19. REAGENT FOR COBAS C111(AUTO ANALYSER) ROCHE

| GMMI | Item |
|----------------------------|---|
| cobas c111 Reagents | |
| 4657357190 | Albumin BCG for cobas c 111 |
| 5401500190 | ALBT Gen.2 cobas c 111 (2 x 100 Test) |
| 4657373190 | Alk. Phosphatase for cobas c 111 |
| 5401496190 | a-Amylase cobas c 111 (2 X 100T) |
| 4718569190 | ALT/GPT for cobas c 111 |
| 4657543190 | AST/GOT for cobas c 111 |
| 5455308190 | Bicarbonate for cobas c 111(2 x 100 Test) |
| 5401747190 | Bili Direct for cobas c 111(2 x 50 Test) |
| 4774256190 | Bili Total S for cobas c 111 |
| 4718933190 | Calcium for cobas c 111 |
| 4718917190 | Cholesterol for cobas c 111 |
| 5401763190 | CKMB for cobas c 111(2 x50 Test) |
| 5401755190 | Creatinine Jaffe for cobas c 111(4 x 100 Test) |
| 5401593190 | Creatinine Kinase for cobas c 111(2 x 100 Test) |
| 5401470190 | Creatinine Plus for cobas c 111(2 x 100 Test) |
| 5401615190 | Creactive Protein for cobas c 111(2 X 100 Test) |
| 4719085190 | D-Dimer |
| 5007348190 | Ethanol cobas c 111 |
| 5401658190 | Iron cobas c 111(2 x 50 Test) |
| 5401461190 | GGT for cobas c 111(2 x 100 Test) |
| 4657527190 | Glucose cobas c 111 |
| 5401640190 | HbA1c for cobas c 111 (2 x 100 Test) |
| 5401488190 | HDL Cholesterin for cobas c 111 |

| | |
|--|--|
| 5007402190 | hs CRP, cobas c 111 |
| 540166190 | Lactate 100 T cobas c111 |
| 5401674190 | LDH IFCC cobas c 111(2 x 50 Test) |
| 5401682190 | LDL Cholesterin (2 x 50 Test) |
| 5401704190 | Lipase color cobas c 111(2 x 50 Test) |
| 5401712190 | Magnesium, cobas c 111(2 x 50 Test) |
| 5401739190 | NH3L 100T cobas c 111 |
| 5401771190 | Panc. Amylase for cobas c 111(2 x 50 Test) |
| 5401780190 | Phosphorus for cobas c 111(2 x 50 Test) |
| 4657586190 | Total Protein for cobas c 111 |
| 4657594190 | Triglycerides for cobas c 111 |
| 4657616190 | Urea liquid for cobas c 111 |
| 4657608190 | Uric Acid for cobas c 111 |
| ISE reagents, Auxillaries and Consumables | |
| 4774248190 | Detergent 1 (NAOH-D) |
| 4774221190 | Pyridoxal Phosphate for cobas c 111 |
| 4774230190 | Saline/Diluent 9% NaCl |
| 4838149001 | ISE Calibrator indirect/urine cobas c 111 |
| 4838157001 | ISE Reference Solution cobas c 111 |
| 4838106001 | ISE Calibrator Kit cobas c 111 |
| 4838181001 | ISE Deproteinizer cobas c 111 |
| 4838165001 | ISE Etcher cobas c 111 |
| 4838092001 | Reference electrode c 111 |
| 4838084001 | Sodium Electrode ISE cobas c 111 |
| 4834925001 | Potassium Electrode ISE cobas c 111 |
| 4834909001 | Chloride Electrode ISE cobas c 111 |
| 4357108001 | Cuvette Segments cobas c 111 |
| 20754765322 | cobas Integra Cleaner |
| | pm KIT |
| Calibrators | |
| 10759350190 | CFAS 12x3 ml |
| 11447394216 | CFAS CK-MB |
| 12172623122 | CFAS Lipids |
| Controls | |
| 10171743122 | Precinorm U |
| 10171778122 | Precinorm U |
| | Precipath U |
| 10171760122 | Precipath U |

20. ELECTRO CHEMILUMINESCENCE'S (Roche ELECSYS 2010)

| GMMI NO. | PARAMETER |
|-------------------------|---------------------------|
| Thyroid Hormones | |
| 4738578191 | Anti-TG Gen.2 Elecsys Kit |
| 11820818191 | Anti-TPO Elecsys Kit |
| 4388780190 | Anti-TSHR Elecsys Kit |
| 3051986190 | FT3 II Elecsys Kit |
| 11731297122 | FT4 Elecsys Kit |
| 11731360122 | T3 Elecsys Kit |
| 12017709122 | T4 Elecsys Kit |
| 5118921190 | TG Elecsys Kit |
| 11731459122 | TSH Elecsys Kit |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Fertility Hormones | |
| 3000087122 | DHEA-S RP Elecsys Kit |
| 3000079122 | Estradiol Elecsys Kit |
| 11775863122 | FSH Elecsys Kit |
| 3300811190 | HCG Stat II Elecsys Kit |
| 3271749190 | HCG+ β II Elecsys Kit |
| 11732234122 | LH Elecsys Kit |
| 12145383122 | Progesterone Elecsys Kit |
| 3203093190 | Prolactin Elecsys Kit |
| 3052001190 | SHBG Elecsys Kit |
| 5200067190 | Testosterone Elecsys Kit |
| Adrenal Cortex | |
| 3255751190 | ACTH Elecsys Kit |
| 11875116122 | Cortisol RP Elecsys Kit |
| Cancer Markers | |
| 4481798190 | AFP Elecsys Kit |
| 11776223322 | CA 125 II RP Elecsys Kit |
| 3045838122 | CA 15-3 II Elecsys Kit |
| 11776193122 | CA 19-9 Elecsys Kit |
| 11776258122 | CA 72-4 Elecsys Kit |
| 11731629322 | CEA Elecsys Kit |
| 11820966122 | Cyfra 21-1 Elecsys Kit |
| 3289788190 | Free PSA Elecsys Kit |
| 12133113122 | NSE RackPack Elecsys Kit |
| 4641655190 | PSA Elecsys Kit |
| Bone Markers | |
| 11972308122 | β -Cross Laps Elecsys Kit |
| 12149133122 | N-MID Osteocalcin Elecsys Kit |
| 3141071190 | P1NP Total Elecsys Kit |
| 11972103122 | PTH Elecsys Kit |
| 3314847190 | Vitamine D ₃ Elecsys Kit |
| Anemia Markers | |
| 3737551190 | Ferritin Gen.2 Elecsys Kit |
| 4476433190 | Folate III Elecsys Kit |
| 4745736190 | Vitamin B12 Elecsys Kit |
| Cardiac Markers | |
| 11731432122 | CK-MB STAT Elecsys Kit |
| 3002659122 | Digitoxin Elecsys Kit |
| 11820796322 | Digoxin Elecsys Kit |
| 12178214122 | Myoglobin 18 Min. Elecsys Kit |
| 11820788122 | Myoglobin Elecsys Kit |
| 4842464190 | pro BNP II RackPack Elecsys Kit |
| 4491815190 | Troponin T Elecsys Kit |
| 4660307190 | Troponin T STAT Elecsys Kit |
| 5092744190 | Troponin T hs Elecsys Kit |
| 5092728190 | Troponin T hs STAT Elecsys Kit |
| Diabetes Care | |
| 3184897190 | C-Peptide Elecsys Kit |
| 12017547122 | Insulin RP Elecsys Kit |
| Infectious Markers | |
| 3290352190 | Anti HCV Elecsys Kit |

| | |
|-----------------------------|--|
| 4854977190 | Anti-HAV Elecsys Kit |
| 11820591122 | Anti-HAV IgM Elecsys Kit |
| 11820559122 | Anti-HBc Elecsys Kit |
| 11820567122 | Anti-HBc IgM Elecsys Kit |
| 11820613122 | Anti-Hbe Elecsys Kit |
| 11820524122 | Anti-HBs Elecsys Kit |
| 11820583122 | HBeAg Elecsys Kit |
| 11820648122 | HBsAg Confirmatory Elecsys Kit |
| 4687787190 | HBsAg Elecsys Kit |
| 12001101122 | HIV Antigen Confirmatory Elecsys Kit |
| 11971611122 | HIV Antigen Elecsys Kit |
| 4860446190 | HIV Combi Elecsys Kit |
| TORC Pannel | |
| 4618815190 | Toxo IgG Elecsys Kit |
| 4618858190 | Toxo IgM Elecsys Kit |
| 4618793190 | Rubella IgG Elecsys Kit |
| 4618831190 | Rubella IgM Elecsys Kit |
| 4784596190 | CMV IgG Elecsys Kit |
| 4784618190 | CMV IgM Elecsys Kit |
| Maternal Care | |
| 4854098200 | PAPP-A Elecsys Kit |
| 4854071200 | Free β HCG Elecsys Kit |
| 5144671190 | PLGF Elecsys Kit |
| 5109523190 | SfIT-1 Elecsys Kit |
| Sepsis Markers | |
| 5056888200 | BRAHMS Procalcitonine (PCT) |
| 5109442190 | IL-6 Elecsys Kit |
| Allergy Markers | |
| 4827031190 | IgE Elecsys Kit |
| Brain Damage Markers | |
| 3175243190 | S100 Elecsys Kit |
| RA Markers | |
| 5031656190 | Anti-CCP Elecsys Kit |
| | |
| | |
| GMMI NO. | PARAMETER |
| 11662970122 | Clean-Cell Elecsys - 6 x 380 ml |
| 11662988122 | Assay Buffer Elecsys Pro-Cell - 6 x 380 ml |
| 11706799001 | Assay tip Elecsys 2010 - 60 x 60 |
| 11706802001 | Assay cup Elecsys 2010 - 30 x 120 |
| | |
| 3255760190 | ACTH CalSet Elecsys Kit |
| 4487761190 | AFP CalSet Elecsys Kit |
| 11972316122 | β -Cross Laps CalSet Elecsys Kit |
| 11776240322 | CA 125 II CalSet Elecsys Kit |
| 3045846122 | CA 15-3 II CalSet Elecsys Kit |
| 11776215122 | CA 19-9 CalSet Elecsys Kit |
| 11776274122 | CA 72-4 CalSet Elecsys Kit |
| 11731645322 | CEA CalSet 2.Gen. Elecsys Kit |
| 11731572122 | CK-MB CalSet STAT Elecsys Kit |

| | |
|-------------------------|---|
| 11875124122 | Cortisol CalSet Elecsys Kit |
| 3184919190 | C-Peptide CalSet Elecsys Kit |
| 11820974322 | Cyfra CalSet II Elecsys Kit |
| 3000095122 | DHEAS CalSet Elecsys Kit |
| 3002667122 | Digitoxin CalSet Elecsys Kit |
| 11820907322 | Digoxin CalSet Elecsys Kit |
| 3064921122 | Estradiol II CalSet II Elecsys Kit |
| 3737586190 | FERRI CalSet Gen 2 Elecsys Kit |
| 4874072190 | Folate III Calset Elecsys Kit |
| 4854080200 | Free β HCG Calset Elecsys Kit |
| 3289796190 | Free PSA Calset Elecsys Kit |
| 3032680122 | FSH II CalSet (Iyo) Elecsys Kit |
| 3051994190 | FT3 II CalSet Elecsys Kit |
| 11731661122 | FT4 CalSet Elecsys Kit |
| 3303071190 | HCG STAT CalSet Elecsys Kit |
| 3302652190 | HCG+ β CalSet II Elecsys Kit |
| 11930427122 | IgE CalSet Elecsys Kit |
| 5109469190 | IL-6 CalSet Elecsys Kit |
| 12017504122 | Insulin CalSet Elecsys Kit |
| 3561097190 | LH CalSet Elecsys Kit |
| 12178222122 | Myoglobin CalSet 18Min Elecsys Kit |
| 11820893122 | Myoglobin CalSet Elecsys Kit |
| 11972111122 | N-MID Osteocalcin CalSet Elecsys Kit |
| 12133121122 | NSE CalSet Elecsys Kit |
| 3141080190 | P1NP Total CalSet Elecsys Kit |
| 4854101200 | PAPP-A CalSet Elecsys Kit |
| 5144701190 | PLGF Calset Elecsys Kit |
| 4842472190 | pro BNP II CalSet Elecsys Kit |
| 12145391122 | Prog. CalSet Elecsys Kit |
| 3277356190 | Prolactin CalSet Elecsys Kit |
| 4485220190 | PSA CalSet Elecsys Kit |
| 11972219122 | PTH CalSet Elecsys Kit |
| 3289834190 | S100 CalSet Elecsys Kit |
| 5109531190 | SFLT-1 Calset Elecsys Kit |
| 3052028190 | SHBG CalSet Elecsys Kit |
| 11731548122 | T3 CalSet Elecsys Kit |
| 12017717122 | T4 CalSet Elecsys Kit |
| 5202230190 | Testosterone II Cal Set Elecsys Kit |
| 11820940122 | TG Calset Elecsys Kit |
| 4856627190 | Trop.T CalSet Elecsys Kit |
| 5092752190 | Trop.T hs CalSet Elecsys Kit |
| 4856643190 | Trop.T Stat CalSet Elecsys Kit |
| 5092736190 | Trop.T hs Stat CalSet Elecsys Kit |
| 4738551190 | TSH CalSet Elecsys Kit |
| 4572459190 | Vitamin B12 CalSet II Elecsys Kit |
| 3314855190 | Vitamin D ₃ CalSet Elecsys Kit |
| Elecsys Controls | |
| 11876368122 | Anti-HAV IgM Control Elecsys Kit |
| 11876325122 | Anti-HBc Control Elecsys Kit |
| 11876333122 | Anti-HBc IgM Control Elecsys Kit |
| 11876384122 | Anti-HBe Control Elecsys Kit |

| | |
|--------------------------|---|
| 11876317122 | Anti-HBs Control Elecsys Kit |
| 11876376122 | HBeAg Control Elecsys Kit |
| 4655346190 | PreciControl ACTH Elecsys Kit |
| 4415299190 | PreciControl Anemia Elecsys Kit |
| 5031664190 | PreciControl Anti CCP Elecsys Kit |
| 4855043190 | PreciControl Anti HAV Elecsys Kit |
| 11972227122 | PreciControl Bone Marker Elecsys Kit |
| 4917049190 | PreciControl Cardiac Elecsys kit |
| 4784600190 | PreciControl CMV IgG Elecsys Kit |
| 4784626190 | PreciControl CMV IgM Elecsys Kit |
| 4687876190 | PreciControl HBsAg Elecsys Kit |
| 3290379190 | PreciControl HCV Elecsys Kit |
| 5162645190 | PreciControl HIV Elecsys Kit |
| 5109477190 | PreciControl IL-6 Elecsys Kit |
| 4899881200 | PreciControl Maternal Care Elecsys Kit |
| 3609979190 | PreciControl Multi Analyte Elecsys Kit |
| 5144728190 | PreciControl PLGF Elecsys Kit |
| 4618807190 | PreciControl Rubella IgG Elecsys Kit |
| 4618840190 | PreciControl Rubella IgM Elecsys Kit |
| 3330648190 | PreciControl S100 Control Elecsys Kit |
| 5156394190 | PreciControl SFLT-1 Elecsys Kit |
| 5042666191 | PreciControl ThyroAB Elecsys Kit |
| 4618823190 | PreciControl Toxo IgG Elecsys Kit |
| 4618866190 | PreciControl Toxo IgM Elecsys Kit |
| 5095107190 | PreciControl Troponin Elecsys Kit |
| 11776479122 | PreciControl TSH Elecsys Kit |
| 11776452122 | PreciControl Tumor Marker Elecsys Kit |
| 11731416190 | PreciControl Universal Elecsys Kit |
| Diluents | |
| 3028542122 | Estr/Prog. Diluent Elecsys |
| 11361252122 | Hepatitis A Diluent Elecsys Kit |
| 3609987190 | MultiAssay Diluent Elecsys Kit |
| 3004864122 | NSE Diluent Elecsys Kit |
| 12017741122 | RBC Folate - Hemolysate |
| 11732277122 | Universal Diluent Elecsys Kit |
| 3183971122 | Universal Diluent Elecsys Kit |
| 5107555190 | Tg Confirmatory Reagent |
| Other Consumables | |
| 11729306122 | Blank Cell Elecsys |
| 11776576122 | CalSet Vials Elecsys |
| 11820451122 | Cell Check Elecsys |
| 11800507001 | Clean Liner Elecsys |
| 3142949122 | ControlSet Vials Elecsys |
| 3005712190 | ProbeWash M (~ 12 x 350 = 4200 tests) |
| 11930346122 | Sys Wash Elecsys (1 x 500 ml) - 30 ml per 250 tests |
| 5633419001 | Elecsys Consumable PM Kit |

21. ELECTRO PHORIESIS (MINICAP)

| REF CAT. | DESCRIPTION |
|----------------|---|
| Minicap | |
| 2203 | Minicap Protein (E) 6 |
| 2223 | MAXI - KIT MINICAP PROTEIN (E) 6 |
| 2280 | Minicap Reagents Cups |
| 2058 | Capiclean |
| 2300 | Minicap Immuno Typing Kit (To be used with Protein Kit) |
| 2207 | Hemoglobin (E) |
| | |
| Control | |
| 4785 | CONTROL Sera Normal |
| 4787 | Hypergamma control Serum |
| 4781 | Molecular Weight controls |
| 4792 | Hb A F S C control |
| 4777 | Hb AF Control |
| 4778 | Hb Normal Control |
| 4779 | Pathological Hb A 2 control |
| 4790 | Enzy control (for LDH & CK) 1 ml |
| 4776 | Lp (a) control serum |
| 4754 | Hb A 1 C calibrators |
| 4784 | Hb A 1c controls |
| 4793 | ISO - PAL control |
| 4794 | CSF Control |
| 4795 | Normal CDT Control |
| 4796 | PATHOLOGICALCDT Control |
| 4797 | CDT Controls Diluent |
| 4770 | A 1 AT Controls |
| | IF/IT CONTROL |
| | Capillary Cartridge |
| | Haenolyse solution |
| | filter |
| | Eppendrot tube |
| | Printer cartridge |
| | washing solution |

22. URINE ANALYZER (U 2400) AUTOMATIC

| GMMI | Item |
|------------|---------------------------------|
| 3012590061 | Urisys 2400 calibration strips |
| 3012557061 | Urisys 2400 cassette 400 strips |
| 3504557001 | Maintenance kit |
| | Nacl |
| | sampling needle |

23. STERIGEN DISENFECTENT SYSTEM

| | |
|----|--|
| 1. | Electrolyte Solution for Sterigen System . |
|----|--|

24. MISCELLANIOUS

| | |
|----|--|
| 1 | Cleaner solution |
| 2 | Formaline liquid |
| 3 | Disposable tips –small - Big |
| 4 | Blood lancet disposable |
| 5 | De-ionisel water |
| 6 | Disposable ESR tube with set |
| 7 | Tourniquet |
| 8 | Glass Cover Slip |
| 9 | Glass Slide Pick II |
| 10 | Glass Marking Pencil (White) |
| 11 | Tissue Paper |
| 12 | Dot Matrix Printer paper |
| 13 | Vacutainer Needle |
| 14 | Non-Vacutainer Tube Plain, EDTA, Sugar 3.2.1 sodium citrate 3.8.1 Sodium citrate |
| 15 | Vacutainer Tube plan ,EDTA ,sugar 3.2.1 sodium citrate 3.8.1 Sodium citrate |
| 16 | EDTA Powder |
| 17 | Leishman Stain (Powder) |
| 18 | Leishman Stain (Ready to Use) |
| 19 | Sodium Hypochloride |
| 20 | Glycerin Pure |
| 21 | Xylene |
| 22 | Test Tube Glass |
| 23 | Sample Rack |
| 24 | Auto Pipette Fixed/Variable all volumes |
| 25 | Cidex Solution |
| 26 | Formaline Tablet |
| 27 | Sodalime |
| 28 | Filetr Paper No.- 1 |
| 29 | Methanol |
| 30 | Capillary Tube |
| 31 | Disposable Urine, Stool, Sputum Container with wide mouth |
| 32 | ECG Paper big size |
| 33 | EEG Paper (Medikit System Chandigarh) |
| 34 | ECG Paper (BPL Model 9108) |
| 35 | EEG Paste |
| 36 | Ultrasound Jelly |
| 37 | ECG Jelly |
| 38 | Hemoglobinometer Prismatic Hollinger Top |
| 39 | Couting Chamber neubeur double improved ruling |

25. Digitalizer (Make Fujifilm corporation) (Capsula X)

| | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Cassettes : |
| | (a) 8" x 10" with image plate |
| | (b) 10" x 12" with image plate |
| | (c) 14" x 14" with image plate |
| | (d) 14" x 17" with image plate |

26. X-Ray Film

| | |
|----|----------------------------|
| 1 | X-Ray Film Size:- 6½ x 8½ |
| | X-Ray Film Size:- 8 x 10 |
| | X-Ray Film Size:- 10 x 12 |
| | X-Ray Film Size:- 12 x 12 |
| | X-Ray Film Size:- 12 x 15 |
| 2 | Fixer Size :- 22.5 ltr. |
| 3. | Developer size:- 22.5 ltr. |

27. Memography Film

| | |
|----|------------------------------|
| 1. | Mamography Film Size:- 18x24 |
|----|------------------------------|

Place: Patna

Date: 4th May 2012

Sd/-Illegible,
Superintendent.

अधीक्षक का कार्यालय
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

निविदा सूचना

सं० 6429—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना के वित्तीय वर्ष 2012-13 में हड्डी रोग विभाग के नया ओ० टी०-5 हेतु मशीन/उपकरण आदि के कय हेतु बिहार वाणिज्यकर में निबंधित निर्माताओं/प्राधिकृत विक्रेताओं से मुहरबंद कम्प्यूटराईज टंकित निविदा इस निविदा प्रकाशन तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ आमंत्रित किया जाता है। बिहार के बाहर के फर्म जो बिहार वाणिज्य कर में निबंधित नहीं हैं, वे भी निविदा में इस शर्त के साथ भाग ले सकते हैं परन्तु दर अनुमोदन के पश्चात् कय आदेश के पूर्व उन्हें बिहार वाणिज्यकर में निबंधन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका आदेश रद्द कर दिया जायेगा एवं द्वितीय अनुमोदित दर वाले निविदा दाता को आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा। निविदा दो भाग में होगी तकनीकी एवं वित्तीय। निविदा अलग-अलग लिफाफे में मुहरबन्द होगी और लिफाफे के उपर मशीन/उपकरण हेतु तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। निविदा सिर्फ निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदा, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त निविदा या फटा निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगा। विस्तृत सूचना एवं मशीनों/उपकरणों का विवरणी इत्यादि www.prdbihar.gov.in & www.pmch.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है या कार्यालय अवधि में किसी भी दिन आवेदन देकर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। तकनीकी निविदा के साथ सभी अभिलेखों के साथ-साथ 1,00,000.00/- (एक लाख रुपये) का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जमा करना होगा। आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी। निविदा की सभी पृष्ठों को पृष्ठांकित करते हुए विस्तृत उल्लेख अग्रसारण पत्र पर अवश्य रूप से अंकित होना चाहिए।

स्थान :- पटना

दिनांक :- 09 मई 2012

(ह०)—अस्पष्ट,
अधीक्षक ।

TERMS & CONDITIONS

- 1- Tender should be in two parts (technical/ commercial) in two separate sealed envelop mention there on technical tender / commercial tender.
- 2- Both tender (technical/ commercial) should be in prescribed Performa enclosed with terms and conditions and also mention break up rate of all attachment/ accessories of the machine/ equipment.
- 3- All relevant document, authority letter, of authorized importer of India or Eastern India, Manufacture quality certificate, sales tax Clearance certificate, Photocopy of PAN Card, specification of the machine/ equipment, installation list of machine/ equipment should be attach along with Technical Tender. All the above documents should be attached in the technical bid if any document was not attached with technical bid than the tender will be rejected.
- 4- Minimum warranty (with part) should be three years of above one lakh Machine and it will count from date of installation and working certificate.
- 5- Before Receipt of Payment Bidder shall submit 5% Bank Guarantee for The warranty Period (3 year) of Value of Whole System and An agreement of CMC for rest 2/7 Year on Non Judicial Stamp Paper .
- 6- Only sufficient power Supply, space for the installation will be provided by the Institution. Rest expenditure will be borne by the supplier.
- 7- Supplier will have to provide training for doctors and paramedical on their own cost.
- 8- Superintendent reserve right to reject any tender without given any reason.
- 9- Tender should be typed only. Handwritten and overwriting tender will be rejected.
- 10- Vat Tax and I.T. will be deducted from the bill and deposited in Govt. account as per govt. norms.
- 11- Equipment should be ISO/FDA/CE other national or international Quality certified. Approved copy of certificate should be enclosed with technical bid.
- 12- The Company/Tenderer should provide the list of organization to whom they have supplied the above machine and performance report from the said organization.
- 13- Life of machine/ equipment – Machine having cost from one Lakh to Five Lakh is fixed for 5 years and machine carrying the value more than five Lakh the life should not be fixed less than Ten years.
- 14- The models quoted should be as per specification with facilities of up graduation as per requirements and It is mandatory that the name of the model should be mention in the tender. The company has to given a Declaration/ affidavit for the above purpose at the time of technical bid. Manufacturing Companies having turnover Rs. 10 crore and above can apply for machine, costing more than Rs. 5 lakh however companies quoting for machines less than 5 lakh should have annual minimum turnover of Rs. 2 crores in the three consecutive years.
- 15- The rate should be compare on Net Price of whole system with CMC Rate for 2/7 year .
- 16- Tenderer can attend purchase committee meeting on tender Opening date.
- 17- Tenderer should assure a service centre at Patna for the proper maintenance of said machine.

18. Tenderer should be registered in Bihar sales Tax. If they are not registered at the time of tender then after selection, they have to be registered with Bihar sale tax before the order is placed.
- 19- The tenderer have to submit a CD of Technical Specification in word File with their Technical Bid . If the Technical Tender in not found in Word File the Tender will be rejected. Name of the Tenderer should be mention on the above of CD along with the tender number and address.
- 20- The Tendered should have to Submit Rs. 100000/- (Rs One Lac) only as Earnest money with the Technical Tender in the form of Bank Draft/Banker's Cheque in favor of SUPERINTENDENT, P.M.C.H., Patna.

Place: Patna

Date: 9th May 2012

Sd/-Illegible,
Superintendent.

FORMAT OF TECHNICAL BID FOR MACHINE & EQUIPMENT

1. Name & Address of Tenderer :
2. Name of Machine/ Equipment :
3. Name of Manufacturer :
4. Model/ Sr.No./ Size :
Up to date Model
Up gradation Facility
5. Quality certificate (Detail) ISI/ISO/ETC :
6. Specification Detail :
(Also give complains report)
7. Warranty :
8. CMC for 2/7 years (Excluding warranty) :
9. Authorized Distributor/ MFG :
10. Nearest Service Center :
Details and phone no.
11. Details of consumable :
12. Installation List :

Signature of Authorized Person

FORMAT OF COMMERCIAL BID FOR MACHINE & EQUIPMENT

1. Name & address of Tenderer :
2. Manufacturer/ Authorized Distributor :
3. Name of Machine/ Equipment :
4. Name of Manufacturer :
5. Model/ Size :
6. Unit Price (whole system) :
7. CST/BST/ETC :
8. Total :
9. Warranty :
10. CMC of whole system for 2 years
/7 years Rate/ Year :
11. Net Price of whole system for 5/10 years
with CMC (including warranty period) :
12. Rate of consumable :

Signature of Authorized Person

**TENDER LIST OF MACHINE/EQUIPMENTS ETC. ITEMS FOR THE
DEPARTMENT OF ORTHOPEDIC NEW O.T. 5.**

1. C-ARM MACHINE
2. SPLIT AIR CONDITIONER 1.5TON, 2TON
3. REFRIGERATOR 1000 /782 LTR.
4. ANESTHESIA MACHINE WITH ALL ACCESSORIES
5. MULTIPARA CARDIAC MONITOR WITH ALL ACCESSORIES
6. SUCTION MACHINE
7. DIATHERMY MACHINE WITH ALL ACCESSORIES
8. MUN – MUN SET WITH POWER DRILL
9. REMOTE CONTROL RADIO LUSCENT O.T. TABLE
10. TRS SET
11. TKR INSTRUMENTATION SET (CEMENTED) WITH 100 IMPLANT
12. THR INSTRUMENTATION SET CEMENTED
13. THR INSTRUMENTATION SET UNCEMENTED
14. CEMENT GUN
15. O.T. LIGHT
16. INSTRUMENT STERILIZER
17. INSTRUMENT BIOLER

**Superintendent
Patna Medical College & Hospital, Patna.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 09—571+20-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

पत्रांक नि०को०, गया-2070/11-290 नि०को०/रा०,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

9 मई 2012

श्री संजय कुमार अम्बष्ट, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, बोधगया सम्प्रति अंचल अधिकारी, मेसकौर, नवादा द्वारा एक साजिश के तहत तथ्यों को छुपाकर लोक भूमि को सुरक्षित रखने के बजाये व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने का जन विरोधीकृत के लिए इनके विरुद्ध जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-436/गो०, दिनांक-19.08.11 द्वारा प्रतिवेदित आरोप-पत्र "क" एवं अनुशंसा के आलोक में विभागीय आदेश सं०-580 नि०को०, दिनांक-26.11.11 के द्वारा श्री राम विलास पासवान, अपर समाहर्ता, गया को जाँच पदाधिकारी नियुक्त करते हुए अम्बष्ट के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

जाँच पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, गया के पत्रांक-638/गो०, दिनांक-22.11.11, पत्रांक-112/गो०, दिनांक 29.03.12 एवं पत्रांक-147/गो०, दिनांक-26.04.12 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, श्री अम्बष्ट के विरुद्ध गठित आरोपों एवं श्री अम्बष्ट से प्राप्त कारण-पृच्छा के आलोक में मामले की सम्यक रूप से सरकार के स्तर से समीक्षा की गयी।

अपर समाहर्ता, गया ने अपने पत्रांक-147/मु०गो०/रा० दिनांक 26.04.12 में विभिन्न विन्दुओं पर अपना प्रतिवेदन समर्पित किया है। मुख्य रूप से यह विन्दु उभरकर सामने आता है कि भू-हदबंदी अधिसूचना संख्या-877 दिनांक-13.11.95 में पुराना प्लॉट नं०-298 रकवा-4.81 के ठीक दो क्रमांक नीचे प्लॉट नं०-195 रकवा-1.26 एकड़ भूमि भी भू-हदबंदी भूमि के रूप में अर्जित होना स्पष्ट है। यदि अंचल निरीक्षक द्वारा 4.81 एकड़ को भू-हदबंदी होना प्रतिवेदित किया गया तो 1.26 एकड़ को इसी अधिसूचना में अंकित होने पर भी भू-हदबंदी से मुक्त होना प्रतिवेदन करना अपने पदीय दायित्वों से हटकर व्यक्ति विशेष के पक्ष में अनुशंसा करना स्वतः स्पष्ट है। बी०टी० एक्ट के अन्तर्गत भू-हदबंदी भूमि का आदेश पारित होने पर भी तरमीम की मांग करना भू-हदबंदी अधिनियम की धारा-3 के प्रावधान अनुसार अनुचित है बल्कि इन्हें इस अधिनियम के अनुसार इस आदेश पर अग्रेतर कार्रवाई न करने से अंचल अधिकारी को सूचित करते। अतः तरमीम कर अग्रेतर कार्रवाई की अनुशंसा करना अधिनियम की धारा-3 के विपरीत एवं पदीय दायित्व से विमुख कार्य संपादन का घोटक है।

तत्कालीन अंचल निरीक्षक के द्वारा तरमीम की जानकारी की मांग की गई। उनके द्वारा नामांतरण की अनुशंसा नहीं की गई। अंचलाधिकारी का दायित्व था कि वे राजस्व पदाधिकारी से प्रासंगिक आदेश के तरमीम की जानकारी प्राप्त करते तथा बिहार भू-हदबंदी अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवेदन की मांग करते अथवा स्वयं जांच करते। अंचलाधिकारी के सम्बन्धित आदेश के अभिलेख फलक में अंचल निरीक्षक द्वारा नामांतरण की अनुशंसा का जिक्र मिलता है। तथापि अंचल निरीक्षक के स्तर से ऐसी कोई अनुशंसा अभिलेख पर अंकित नहीं मिलती है। उनके स्तर से पुराना खेसरा सं०-195 के तहत भू-अर्जन के अधिसूचित भूमि की शिनाख्त न कराना एक चूक के रूप में सामने आई है।

सम्बन्धित नामान्तरण अभिलेख में अंचलाधिकारी के स्तर से 22.11.04 को आदेश पारित किया गया एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का सन्दर्भ दिया गया तथापि अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 29.11.04 का है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार ने श्री संजय कुमार अम्बष्ट तत्कालीन अंचल निरीक्षक, बोधगया सम्प्रति अंचलाधिकारी मेसकौर, नवादा को निम्नांकित वृहत दण्ड देने का निर्णय लिया गया है :-

(क) दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक जो तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

(ख) देय प्रोन्नति की तिथि से दो वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक जो तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सी० अशोकवर्धन, प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 09—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>